



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.09.2022

आज दिनांक 02.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर०के० भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा श्री अनिल कुमार द्वारा मु०अ०स० 074 / 2022 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त बलिराम पुत्र सहतू हरिजन निवासी ग्राम कवर-कवरी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को नौवागांव तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

बलिराम पुत्र सहतू निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 074 / 2022 धारा 376 भादवि थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर

विवरण – उक्त अभियुक्त के द्वारा दिनांक 01.09.2022 को वादिनी / पीड़िता को घर में अकेला पाकर जबरदस्ती बलात्कार करने के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कराया था महिला संबन्धित अपराध को गम्भीरता से लेते हुये थाना धर्मसिंहवा पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 02.09.2022 को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार, हे०का० इल्ताफ खान, का० अजय यादव, का० हरिन्द्र यादव।



संतकबीरनगर पुलिस





संतकबीरनगर पुलिस



शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद के दौरान घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत संतोषपुर से इवेन्ट संख्या 06921 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद होने से 03 लोगों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस 108 से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी अरविन्द गुप्ता, आरक्षी दीपक कुमार, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 वाहनो से 2,00,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 02.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 235 वाहनो से 2,00,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।